



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 06.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



चोरी की घटना का सफल अनावरण, थाना कुलपहाड में सर्राफ राजू सोनी के घर में चोरी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये गये आभूषण, नगदी सहित अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद ।

थाना कुलपहाड अन्तर्गत मुहल्ला हटवारा कस्बा कुलपहाड निवासी श्री राजू सोनी पुत्र जगदीश प्रसाद सोनी द्वारा दिनांक 24.06.2021 को थाना कुलपहाड में लिखित तहरीर दी जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी अपनी पत्नी के इलाज के लिये जनपद झांसी गया हुआ था, बाद इलाज वापस घर आकर देखा कि घर सूना पाकर अज्ञात चोरों द्वारा घर के ताले तोडकर सोने चाँदी के आभूषण व नगदी चोरी दिनांक 23/24 जून 2021 की रात्रि में की गयी थी, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुलपहाड में दिनांक 24.06.2021 को मु0अ0सं0 150/2021 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया ।

चोरी की घटना का जनपदीय पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ अन्य टीमों के द्वारा घटना स्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया, घटना के सफल/अतिशीघ्र अनावरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस की कई टीमों को लगाया गया था, जिसके क्रम में गठित टीमों – थाना स्थानीय पुलिस / स्वाट / सर्विलांश टीम के अथक प्रयासों द्वारा सुरागरसी/पतारसी करते हुए, दिनांक 05.07.2021 की रात्रि को चोरी की घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों क्रमशः 1. राजकुमार कोरी पुत्र केशरीप्रसाद, 2. राजू अहिरवार पुत्र कन्धीलाल अहिरवार, 3. लल्लन उर्फ सुनील मिश्रा पुत्र रामकृपाल, 4.सरमन पुत्र जगदीश अहिरवार को मय चोरी गये माल मशरूका (कुल 4.057 किलो के आभूषण सफेद धातु, 131.34 ग्राम के आभूषण पीली धातु व 23000 रुपये की नगदी) के साथ ग्राम बम्हौरी खुर्द में सिरमौर तिराहा मोड थाना कुलपहाड जिला महोबा से

गिरफ्तार किया गया, जिसमें से अभियुक्त राजकुमार के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ । माल बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 150/2021 थाना कुलपहाड में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी एवं अभियुक्त राजकुमार कोरी उपरोक्त के पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी होने से अभियुक्त राजकुमार के विरुद्ध थाना कुलपहाड पर मु0अ0सं0 158/2021 धारा 3/25 ARMS ACT पंजीकृत किया गया । अभियुक्त गण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्त पकडे गये अभियुक्तों द्वारा चोरी की घटना में अन्य अभियुक्त का संलिप्त होना बताया गया है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों सक्रिय हैं ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 06.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- (1) राजकुमार कोरी पुत्र केशरीप्रसाद उम्र 37 वर्ष नि0मु0 काजीपुर कस्बा व कोत0 महोबा जिला महोबा
- (2) राजू अहिरवार पुत्र कन्धीलाल उम्र 26 वर्ष नि0मु0 फतेहपुर बजरिया थाना कोत0 महोबा
- (3) सुनील मिश्रा उर्फ लल्लन पुत्र रामकृपाल उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा
- (4) सरमन पुत्र जगदीश अहिरवार उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम सुगिरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से बरामद माल का विवरण:-

- (1) राजकुमार कोरी उपरोक्त से सफेद धातु की 89 नग छोटे बड़े पायल बजनी 2.279 किग्रा0, गणेश लक्ष्मी मय सिक्का(मय उर्दू लिखे सिक्के) बजन 72 ग्राम सफेद धातू, पीली धातू हार बजन 64.42 ग्राम तथा 01 अदद तमन्चा देशी 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध चालू हालत में बरामद हुआ
- (2) राजू अहिरवार उपरोक्त से सफेद धातु 247 पीस विछिया बजन 610 ग्राम, 2 अदद छोटा बड़ा विछिया व 2 अदद छोटी बड़ी करधनी कुल बजन 237 ग्राम, चूड़ा कड़ा छोटा बड़ा बजन 283 ग्राम, वर्तन सफेद धातु छोटे साइज(एक गिलास छोटा व एक आचमन नुमा गिलास, एक छोटा डोंगा, एक चम्मच, एक छोटी कटोरी) कुल बजन 148 ग्राम, 6 अदद राखी, एक हजार का नोट पन्नी नुमा सफेद धातु, पीली धातु के जेवर(एक अदद छुम्की 3.62 ग्राम, एक अदद झुम्का लहरदार 15.07 ग्राम, एक जोड़ा झुम्का 11.11 ग्राम, तपाया हुआ झुम्का का अंश 1.21 ग्राम, 4 अदद बेसर 11.16 ग्राम, 3 अदद लेडीज अंगूठी 3.71 ग्राम, एक जोड़ी कान वाली 1.30 ग्राम, कान के टॉप्स छोटे बड़े व उनके अंश बजन 13.84 ग्राम, छोटी मीडियम गुरिया 2.66 ग्राम, (एक जोड़ी नथ, एक छोटा लॉकेट, एक नाक की कील कुल बजन 0.74 ग्राम) बरामद हुए
- (3) लल्लन मिश्रा उर्फ सुनील उपरोक्त से केश छोटे बड़े गोल चकोर नये पुराने सिक्के कुल बजन 325 ग्राम सफेद धातु बरामद।
- (4) सरमन अहिरवार उपरोक्त से सफेद धातु का दूध पीता हुआ गाय का बछड़ा व छोटी मूर्ति कुल बजन 13 ग्राम व 23000 रूपये नगद बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. **SHO** श्री श्याम प्रताप पटेल थाना कुलपहाड़
2. **SSI** श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा थाना कुलपहाड़
3. कां0 रन्धीर सिंह थाना कुलपहाड़ 4. कां0 राममिलन थाना कुलपहाड़
5. कां0 आमिर खान थाना कुलपहाड़ 6. कां0 सौरभ सिंह थाना कुलपहाड़
7. कां0 मिथुन कुमार थाना कुलपहाड़ 8. कां0 अमित कुमार थाना कुलपहाड़

स्वाट टीम महोबा:-

1. प्रभारी **SI** श्री राजबहादुर
2. कां0 धर्मेन्द्र चाहर 3. कां0 नरेन्द्र कुमार 4. कां0 अभिजीत पाण्डेय

सर्विलांस टीम महोबा:-

1. प्रभारी **SI** श्री राहुल परमार 2. कां0 अंशुल दुबे 3. कां0 दीपक





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 06.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना अजनर पुलिस टीम ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश एवं शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में चलाये जा रहे अपराधियों के सत्यापन/अवैध शस्त्र धारक अपराधियों की चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.07.2021 को प्रभारी थाना अजनर श्री रामप्रताप यादव द्वारा गठित टीम ने अभियान में शामिल होकर अभियुक्त कौशलेश पाल पुत्र गोविन्दी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम इन्द्रहटा थाना अजनर जनपद महोबा को स्यावन तिराहा वहद ग्राम अजनर थाना अजनर जिला महोबा से मय 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु.अ.स. 124/2021 धारा 3/25 आर्म एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...।

कौशलेश पाल पुत्र गोविन्दी उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम इन्द्रहटा थाना अजनर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...।

1. उ.नि. हरिशचन्द्र मिश्रा थाना अजनर जनपद महोबा
2. का. आसवेन्द्र सिंह थाना अजनर जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 06.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अजंर पुलिस द्वारा रुपये-पैसो से हार-जीत की बाजी

लगाकर जुआ खेलते 04 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार



आज दिनांक 06.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन पर चलाये जा रहे जुआरियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्रभारी थाना अजंर SSI श्री रामप्रताप यादव मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर 04 नफर जुआरियों को ग्राम खिरिया कला थाना अजंर जनपद महोबा से ताश

के पत्तो से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मालफड़ 490/-रुपया जामा तलाशी 1000/- रुपया कुल योग 1490/- रुपया व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर मु.अ.सं. 125/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. विनोद कुमार पुत्र भानूप्रताप उम्र 40 वर्ष
 2. जयपाल पुत्र विरंचीलाल उम्र 39 वर्ष
 3. लक्ष्मी पुत्र पारीक्षत उम्र 50 वर्ष
- समस्त नि0गण ग्राम खरियाकला थाना अजंर जनपद महोबा।
4. मनमोहन पुत्र हरगोविन्द उम्र 42 वर्ष नि0 ग्राम खमा थाना अजंर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

1. SSI श्री रामप्रताप यादव (थाना प्रभारी अजंर)
2. का. अभिषेक मौर्य
3. रि.का. फुरकान



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 06.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर/चरखारी के नेतृत्व में महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **04 ई-चालान** व कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **19 व्यक्तियों** से **2900/-रु0 शुल्क** वसूला गया।



आज दिनांक 06.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय सर्किल के थानों की पुलिस बल के साथ क्षेत्रों के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, होटल, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई एवं लोगों को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरूक किया गया व मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी बनाकर रखने की अपील की गई।

